



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 209]  
No. 209]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, जून 14, 1984/ज्येष्ठ 24, 1906  
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 14, 1984/JYAISTHA 24, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असंग्रह संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

सिनाई मन्त्रालय

नई दिल्ली, 13 जून, 1984

अधिसूचना

सां०का०नि० 448(अ) —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जल आयोग में सम्पादक (भागीरथ हिन्दी) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल आयोग, सम्पादक (हिन्दी भागीरथ) भर्ती नियम, 1984 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हताएं: वह व्यक्ति—  
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या  
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,  
उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

3. शिथिल करने की शक्ति: जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ यह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें देखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा निश्चित कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	वर्षों की संख्या	वर्गीकरण	बैतनमान	चयन पद प्रथम अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुश्रेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए, आर्थिक और अन्य प्रवृत्त
1	2	3	4	5	6	7क	7
सम्पादक (जागीरप हिन्दी)	1* (1984) *कार्य- भार के आधार पर परि- वर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपक्षित अननु- सूचित	1100-50- 1600 रु	लागू नहीं होता	40 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु- देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु सीमा प्रवर्धित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अल्प- वयों से (उपरो- क्त जो अल्पमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं, आवास प्राप्त करने के लिए नियत की गई तारीख होगी।	हां	आवश्यक : (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्व- विद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में मास्टर की उपाधि या समतुल्य। या किसी मान्यताप्राप्त विश्व- विद्यालय से स्नातक स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी विषयों के साथ किसी भी विषय में मास्टर की उपाधि या समतुल्य या किसी मान्यताप्राप्त विश्व- विद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर की उपाधि या समतुल्य। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिन्दी विषय के साथ किसी भी विषय में अंग्रेजी के माध्यम से मास्टर की उपाधि या समतुल्य

- (2) संपादन प्रकाशित कार्य का जिसके अंतर्गत अंग्रेजी से हिन्दी में और हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य है पर्यवेक्षी हैसियत में 7 वर्ष का अनुभव, जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य/प्रकाशन संबंधी कार्य को अधिमानता दी जाएगी।

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अभ्यर्थी सुप्रसिद्ध अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विधेयानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता संघ लोक सेवा आयोग के विधेयानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तक शिथिल की जा सकती है (है) जब समय के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

बोझनीय :

- (1) किसी मायता प्राध्व विश्वविद्यालय से पद-कान्ति में डिप्लोमा या समतुल्य।  
(2) तकनीकी विषयों पर द्वितीय में लेख लिखन का अनुभव।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित परीक्षा की व्यवधि यदि कोई हो आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

8

9

10

लागू नहीं होता

एक वर्ष

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण जिसके न हो सकने पर सीधे भर्ती द्वारा।  
टिप्पण : 1100-1600 रु० वेतनमान वाले पद के उच्चपद के पहले 650-1200 रु० के वेतनमान में सहायक सम्पादक (अगोरथ) के पद को नियमित रूप से धारण करने वाले व्यक्ति को उच्चतम पद

पर नियुक्ति के लिए उपयुक्तता का प्रारम्भिक निर्धारण संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। यदि वह निर्धारण के आधार पर उपयुक्त पाया जाता है तो वह सम्भावक (भगोरथ-हिन्दी) के उन्नत पद पर नियमित आधार पर प्रारम्भिक गठन पर ही नियुक्त किया गया समझा जाएगा।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा अर्दी की वृत्ति में यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

11

12

13

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण

केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी :—

(क) (1) जो सदस्य पद धारण किए हुए हैं, या

(2) जिन्होंने 700-1300 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पद पर 5 वर्ष नियमित सेवा की है;

(3) जिन्होंने 650-1200 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास स्तर 7 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ब्रिटिश शैक्षिक प्रमाण और अनुभव हैं।

(पुष्टि के संघ में विचार करने के लिए)

समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति :

1. सयुक्त, सिचाई मंत्रालय—अध्यक्ष

2. सयुक्त सचिव, सिचाई मंत्रालय—सदस्य

3. अध्यक्ष/सदस्य केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य

टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियाँ आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जायेंगी। किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो, विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

ध्यान, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

[सं० 9/84-फा० 39/16/80-रवा० I]

## MINISTRY OF IRRIGATION

New Delhi, the 13th June, 1984

### NOTIFICATIONS

G.S.R. 448 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Editor (Bhagirath-Hindi) in the Central Water Commission, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Water Commission, Editor (Hindi-Bhagirath) Recruitment Rules 1984. (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Powers to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6
1. Editor (Bhagirath—Hindi)	1* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 1100-50-1600.	Not applicable	Not exceeding 40 years. (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government).
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).					

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
6(a)	7	8	9

Yes<sup>2</sup>

Essential :

Not applicable

One year

- (i) Master's Degree of a recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level.

OR

Master's degree of a recognised University or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level.

OR

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi and English as subject at the degree level.

OR

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level.

OR

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level.

- (ii) 7 years' experience in a supervisory capacity of editing journalistic work including translation work from English to Hindi and vice-versa preferably of technical or scientific literature/publications.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of

6(a)	7	8	9
	the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		
	DESIREABLE : (i) Diploma in journalism from a recognised University or equivalent. (ii) Experience of writing articles on technical subjects in Hindi.		
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion/deputation/transfer to be made		
	10	11	
By transfer on deputation failing which by direct recruitment.	Transfer on deputation : Officers under the Central Government :— (a) (i) holding analogous posts; or (ii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 700-1300 or equivalent; (iii) with 8 years' service in posts in the scale of Rs. 650-1200 or equivalent; and (b) possessing the educational qualifications and experience in prescribed for direct recruits under column 7. (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years).		
Note : The suitability of the regular holder of the post of Assistant Editor (Bhagirath) in the pay scale of Rs. 650-1200 prior to up-gradation of the post in the scale of Rs. 1100-1600 will be initially assessed by the Union Public Service Commission for appointment to the upgraded post and if assessed suitable, he shall be deemed to have been appointed to the upgraded post of Editor (Bhagirath—Hindi) on a regular basis at the initial constitution.			
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	12	13	
Group 'A' Departmental Promotion Committee : (For considering confirmation) 1. Secretary, Ministry of Irrigation—Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Irrigation—Member 3. Chairman/Member, Central Water Commission—Member Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or the Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment  Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.		

[No. 39/84-F. 39/16/80-Estt.]

सं० का० वि० 449(अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्म्य द्वारा प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय जल आयोग में उप-सम्पादक (भागीरथ—हिन्दी) पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय जल आयोग, उप-सम्पादक, हिन्दी—भागीरथ (समूह ख) पद भर्ती नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन यह होगा जो इन नियमों से उपाखंड अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. शर्तों की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :—उक्त पद पर सीधी शर्तों की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुमोदित है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को हम नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा सच लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या वर्गों के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यापुक्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	बैतनमान	अन्य पद अथवा अनुसूची में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अथवा अनुसूची में	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुमोदित है या नहीं
1	2	3	4	5	6	6-क
उप-सम्पादक (भागीरथ—हिन्दी)	1* (1983) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित अननु-मन्वीय	550-25-750- ब०रो०-30-900 रु०	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निम्नलिखित तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्धमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियम की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के परिबीक्षा की अवधि यदि कोई हो लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की वधा में लागू होगी या नहीं

7	8	9
आवश्यक .	लागू नहीं होता।	2 वर्ष
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय के माध्यम में मास्टर की उपाधि या समतुल्य। या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर की उपाधि या समतुल्य।		

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी विषयों के साथ किसी भी विषय में मास्टर की उपाधि या समतुल्य।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में हिन्दी के माध्यम से मास्टर की उपाधि या समतुल्य।

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर पर हिन्दी विषय के साथ किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर की उपाधि या समतुल्य।

(ii) उप-सम्पादन कार्य हिन्दी प्रकाशनों से संबंधित पत्रकारिता कार्य का जिसके अवसरेत प्रूप शोधन है 2 वर्ष का अनुभव।

टिप्पण . 1 ग्रहृताएँ, अन्यथा अभ्यर्थियों की वशा में सच लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार सिद्ध की जा सकती है।

टिप्पण 2 अनुभव सखी ग्रहृता (ग्रहृताएँ) सच लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में सब सिद्ध की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सच लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए अरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

बाछनीय

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में डिप्लोमा या समतुल्य।

(ii) मुद्रण की विभिन्न प्रक्रियाओं का ज्ञान।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की वशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति सम्पत्ति है तो उसकी सरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में सच लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
10	11	12	13
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा जिनके में हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी — (क) (i) जो सक्षम पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने 425-700 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 5 वर्ष सेवा की है, और (ख) जिनके पास स्तम्भ 7 में सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक ग्रहृताएँ और अनुभव हैं।	(पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति 1 अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग—अध्यक्ष 2 सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य 3 समुक्त सचिव (प्रशासन) मिबाई मन्त्रालय —सदस्य 4 सचिव, केन्द्रीय जल आयोग—सदस्य टिप्पण : पुष्टि में सम्मिलित — विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियाँ सच लोक सेवा आयोग के अनुमोदितार्थ भेजी जाएगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है, तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक सच लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में किसे हो सकती है।	सीधी भर्ती के अवसर पर सच लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।



G.S.R. 449(E)—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sub-Editor (Bhagirath-Hindi) in the Central Water Commission, namely:

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Sub-Editor, Hindi-Bhagirath Central Water Commission (Group B) post Recruitment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay :—The number of posts, classification and scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment age limit, qualification, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule

4. Disqualifications :—No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving :—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6	6(a)
1. Sub-Editor (Bhagirath-Hindi)	1* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Grade 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs 550-23-750- EB-30-900	Not applicable	Not exceeding 30 years. (Relaable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)	No.
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)						

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods
7	8	9	10

**Essential :**

- (i) Master's degree of a recognised University or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level;

Not applicable

2 years

By transfer on deputation, failing which by direct recruitment.

OR

Master's degree of a recognised University or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level;

OR

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi and English as subjects at the degree level;

OR

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level;

OR

Master's degree of a recognised University or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level;

- (ii) 2 years experience of sub-editing/Journalistic work relating to Hindi Publications, including Proof reading.

**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

**Desirable :**

- (i) Diploma in journalism of a recognised University or equivalent;
- (ii) Knowledge of various aspects of printing.

In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p><b>Transfer on deputation:</b>  <b>Officers under the Central Government:—</b>            (a) (i) holding analogous posts; or            (ii) with 5 years' service in posts in the scale of Rs. 425-700 or equivalent; and            (b) possessing the educational qualifications, experience etc. prescribed for direct recruits under column, 7            (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same organisation/department shall ordinarily not exceed 3 years)</p>	<p><b>Grade 'B' Departmental Promotion Committee for considering confirmation:</b>            1. Chairman, Central Water Commission —Chairman            2. Member, Central Water Commission—Member            3. Joint Secretary (Administration), Ministry of Irrigation —Member            4. Secretary, Central Water Commission—Member  <b>Note :</b> The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Union Public Service Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.</p>	<p><b>Consultation with the Union Public Service Commission</b>            necessary while making direct recruitment.</p>

[No. 40/84-F. No. 39/14/80-Estt. II]  
 Y.K. SADHU, Under Secy.

